

## Z62-D360.51 S5AM

न्युमेटिक प्रत्यक्ष उपकरण परिवर्तन

आइटम नंबर 10303034

उच्च गति की मिलिंग, ग्राइंडिंग, ड्रिलिंग, एनग्रेविंग के लिए HF-स्पिंडल

### स्टॉक

हाइब्रिड बॉल बियरिंग (नग) 3

जीवनकाल लुब्रीकेशन (स्निग्धीकरण) अनुरक्षण से मुक्त

### मोटर

मोटर प्रौद्योगिकी 3-चरणीय अतुल्यकालिक ड्राइव (ब्रशरहित और सेंसररहित)

आवृत्ति 1.000 HZ

मोटर ध्रुवों (जोड़ों) की संख्या 1

मूल्यांकित गति 60.000 rpm

त्वरण / मंदी 10 000 rpm प्रति सेकंड (परामर्श के पश्चात् अन्य मान)


### विद्युत शक्तिमान

ठंडा तरल पदार्


|                 | Pmax./5s | S6-60% | S1-100% |      |
|-----------------|----------|--------|---------|------|
| मूल्यांकित पावर | 2,5      | 1,4    | 1,2     | [kW] |
| टॉर्क           | 0,48     | 0,24   | 0,22    | [Nm] |
| वोल्टेज         | 249      | 211    | 206     | [V]  |
| धारा            | 11       | 6,5    | 6       | [A]  |

**Z62-D360.51 S5AM**

न्युमेटिक प्रत्यक्ष उपकरण परिवर्तन  
आइटम नंबर 10303034



माप



पावर चित्र

ठंडा तरल पदार्

कार्य-निष्पादन मापन आंतरिक इंजन टेस्ट बेड पर होता है

**सुविधाएं**

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| इंजन गति सेंसर   | ट्रांसमीटर (TTL)<br>सिग्नल = 6     |
| मोटर सुरक्षा   | PTC 160° C                         |
| हाउज़िंग   | स्टेनलेस स्टील                     |
| हाउज़िंग व्यास:  | 61,9 मिमी                          |
| कूलिंग   | ठंडा तरल पदार्थ                    |
| ऑपरेटिंग परिवेश के तापमान                              | + 10° C ... + 45° C                |
| सीलिंग हवा   |                                    |
| सुरक्षा<br>(सीलिंग एयर चालू की गई)                     | IP54                               |
| औजार विनियम के दौरान चक के माध्यम से जोरदार हवा फेंकें |                                    |
| विद्युतस्थैतिक डिस्चार्ज (ईएसडी) बचाव                  |                                    |
| औजार विनियम  | न्युमेटिक प्रत्यक्ष उपकरण परिवर्तन |
| चक प्रकार  | 8/5°                               |
| तक चकिंग क्षमता  | 6 मिमी (1/4")                      |
| दक्षिणावर्त  |                                    |
| मेल संयोजक   | 9-पिन (SpeedTEC)                   |
| भार  | ~ 4 किग्रा                         |
| रेडियल रनआउट आंतरिक शंकु                               | < 1 μ                              |